



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 441]

नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 3, 2018/माघ 14, 1939

No. 441]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 3, 2018/MAGHA 14, 1939

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2018

का.आ. 510(अ).—केंद्रीय सरकार आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (कॉर्बनिक, अकॉर्बनिक या मिश्रित) (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) की पहली अनुसूची के भाग अ के उपशीर्ष 1(क) (i) में "ऋजु नाइट्रोजनी उर्वरक" से संबंधित क्रम सं. 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

"12 कैल्शियम साइनामाइड

1.	भार के अनुसार नमी प्रतिशत, अधिकतम	1.0
2.	भार के अनुसार कुल नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	19.5
3.	भार के अनुसार साइनामाइड नाइट्रोजन प्रतिशत, न्यूनतम	15.0
4.	भार के अनुसार नाइट्रेट नाइट्रोजन प्रतिशत, अधिकतम	1.5
5.	कण आकार- 90 प्रतिशत से अन्यून सामग्री 4 मिलीमीटर आईएस छलनी से निकल जाएगी और उसे 1 मिलीमीटर आईएस छलनी द्वारा प्रतिधारित किया जाएगा	..

अपेक्षाएं :

प्रत्येक आयातक जो देश में कैल्शियम साइनामाइड आयात करने के लिए आशय करता है, से निम्नलिखित अपेक्षाओं का पालन करना अपेक्षित होगा :-

- (i) आयातक उन थैलों में जिनमें उर्वरक रखे हैं; मुद्रित करेगा या मुद्रित करवाया जाना कारित करेगा कि माल त्वचा और आंखों के लिए प्रदाहजनक है और उसका उपयोग केवल हाथों में दस्ताने पहन कर किया जाए;
- (ii) आयातक प्रत्येक आधान के साथ किसानों के उपयोग के लिए हाथ के दस्ताने पैक करेगा या पैक करवाया जाना कारित करेगा;
- (iii) आयातक, उर्वरक के थैले जिनमें माल पैक किया गया है, में निम्नलिखित उपदर्शित करने के लिए पत्रक उपबंध करेगा या करवाया जाना कारित करेगा।
 - (क) उत्पाद के त्वचा से संपर्क से बचें ;
 - (ख) सुरक्षात्मक वस्त्र और दस्ताने पहनें ;
 - (ग) कार्य के पश्चात् और भोजन से पूर्व हाथों और संपर्क में आई त्वचा को धोएं ।

[फा. सं. 2-2/2017- उर्वरक विधि]

नीरजा आदिदम, संयुक्त सचिव

पाद टिप्पण : उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985, भारत के राजपत्र में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 758(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना सं. का.आ. 3324(अ), तारीख 03-10-2017 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare)

ORDER

New Delhi, the 3rd February, 2018

S.O. 510(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) This Order may be called the Fertiliser (Control) Amendment Order, 2018.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Inorganic, Organic or Mixed) (Control) Order, 1985, (hereinafter referred to as said Order), in Schedule I, in Part A,-

(i) in sub-heading 1 (a), relating to “Straight Nitrogenous Fertilizers”, after serial number 11 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

“12 Calcium Cyanamide

(i)	Moisture per cent. by weight, maximum	1.0
(ii)	Total Nitrogen per cent. by weight, minimum	19.5
(iii)	Cyanamide nitrogen per cent. by weight, minimum	15.0
(iv)	Nitrate nitrogen per cent. by weight, maximum	1.5
(v)	Particle size- Not less than 90 per cent. of the material shall pass through 4mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve	

Requirements.- Every importer who intends to import Calcium Cyanamide into the country shall be required to follow the following requirements:-

- (i) the importer shall print or cause to be printed on the bags containing fertilizers to the effect that the material is irritant to skin and eyes and the same shall be used by wearing hand gloves only;
- (ii) the importer shall pack or cause to be packed hand gloves for use of farmers along with each container;
- (iii) the importer shall provide or cause to be provided a leaflet indicating the following in the bags of fertilisers in which the material is packed:
 - (a) Avoid contact of the product with skin;
 - (b) Wear protective clothing and gloves;
 - (c) Wash hands and exposed skin after work and before meal.”

[F. No. 2-2/2017-Fert. Law]

NEERAJA ADIDAM, Jt. Secy.

Foot Note : The Fertiliser (Control) Order, 1985 was issued *vide* notification number GSR 758(E), dated 25th September, 1985 and was last amended *vide* notification number S.O. 3224(E), dated 3rd October, 2017.